

कक्षा - सातवीं
विषय - हिन्दी
पाठ - 1 बारहमासा

प्र.1) निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए :-

किसी भी कार्य का महत्त्व और उसकी सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने पर ही है। अत्यंत सुघड़ता से किया हुआ कार्य भी यदि आवश्यकता के पूर्व न हो सके तो उसका किया जाना निष्फल ही होगा। चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। उसके देर से किए गए उद्यम का कोई मूल्य नहीं होगा। श्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। इसी कारण यदि बादलों द्वारा बरसाया गया जल कृषक की फसल को फलने-फूलने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना व्यर्थ है। अवसर का सदुपयोग न करने वाले व्यक्ति को इसी कारण पश्चाताप करना पड़ता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो व्यक्ति समय की गति के साथ सामंजस्य बनाकर नहीं चल पाता, वह कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। समय को बड़ा बलवान भी कहा गया है क्योंकि समय के सामने किसी की नहीं चलती।

क) किसी भी कार्य का महत्त्व किस बात पर निर्भर करता है ?

ख) बादलों का गौरव कब तक है ?

ग) अच्छा कार्य भी कब निष्फल हो जाता है ?

घ) समय को बलवान क्यों कहा गया है ?

ड) उपर्युक्त गद्यांश से हमें क्या प्रेरणा मिलती है ?

प्र.2) निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखित प्रश्नों की उत्तर लिखिए।

काले-काले बादल भी,

नभ में चले दहाड़ के।

आँधी इतराने लगती ,

लगते ही आषाढ़ के।

सावन की शोभा न्यारी,

हरियाली की ठाठ है।

नदी सरोवर छलक रहे ,

डूब गए सब घाट है।

पता न चलता न तारों का ,

जाने कहाँ मयंक है ।
झाँक नहीं पाता सूरज ,
भादों का आतंक है ।

- क) काव्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए ।
ख) काव्यांश में किन महीनों की बात की गई है?
ग) 'भादों का आतंक है'-इस पंक्ति से क्या आशय है ?
घ) आषाढ़ महीने की क्या विशेषता है ?
ड) 'मयंक' के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए ।

**प्र.3) संयुक्त व्यंजन - जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से संयुक्त ध्वनियाँ बनती है ।
हिन्दी में स्वर रहित व्यंजन को आगे वाले व्यंजन से मिला दिया जाता है।**

जैसे → क्ष, त्र, ज्ञ, श्र

क् + ष् + अ = क्ष = क्षत्रिय

त् + र् + अ = त्र = त्रिशूल

ज् + ज्ञ् + अ = ज्ञ = ज्ञानी

श् + र् + अ = श्र = श्रीमान

प्र.4) द्वित्व व्यंजन → जब एक वर्ण दो बार मिलता है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं।

पक्का = क् + क = क्क

लज्जा = ज् + ज = ज्ज

चम्मच = म् + म = म्म

गन्ना = न् + न = न्न

प्र.5) निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर संयुक्त व्यंजनों को रेखांकित कीजिए ।

- | | |
|------------|------------|
| 1. उज्ज्वल | 6. कक्षा |
| 2. स्पर्श | 7. त्रिशूल |
| 3. बच्चा | 8. पत्ता |
| 4. प्रति | 9. न्याय |
| 5. श्रम | 10. जुम्मन |